

एफसीएनआर जमा ने बनाया नया रिकॉर्ड

30 सितंबर तक एफसीएनआर (बी) जमा 65-70 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान

नई दिल्ली, 27 जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विशेष एफसीएनआर (बी) जमा योजना को अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।

एसबीआई रिसर्व की सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (बैंक) यानी एफसीएनआर (बी) जमा में महज 45 दिनों के भीतर ही वर्ष 2013 में तीन महीनों के दौरान जुटाए गए 26 अरब डॉलर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट का अनुमान है कि यदि मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 30 सितंबर 2026 तक एफसीएनआर (बी) जमा 65 से 70 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच सकती है,



जबकि कुल विदेशी मुद्रा जमा 80 से 85 अरब डॉलर के दायरे में रहने की संभावना है। एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष ने बताया कि 17 जुलाई 2026 तक एफसीएनआर (बी) के तहत 17.4 अरब डॉलर की जमा राशि जुटाई जा चुकी है, कुल पूंजी प्रवाह 20 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान एफसीएनआर (बी) जमा का

रहा. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर वैश्विक भारतीय समुदाय का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त और सितंबर 2026 में परिपक्व होने वाली बड़ी मात्रा में मौजूदा एफसीएनआर जमा को नई योजना के तहत अधिक आकर्षक ब्याज दरों के कारण दोबारा निवेश किए जाने की संभावना है. इससे जमा राशि में और तेजी आने की उम्मीद है. एसबीआई का अनुमान है कि मौजूदा आधारभूत अनुमान के अतिरिक्त करीब 10 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि भी जुटाई जा सकती है, जिसका बड़ा हिस्सा उन देशों से आने की संभावना है जहां

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप को सीमित बताया गया है. एसबीआई का मानना ​​है कि रुपये की दीर्घकालिक मजबूती बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वह वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते तनाव और अस्थिर पूंजी प्रवाह जैसे बाहरी झटकों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता भी बनी रहे .

कर संबंधी रियायतें उपलब्ध हैं. रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है।

पीएफ खातों में ब्याज जमा होना शुरू

नई दिल्ली, 27 जुलाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए



भविष्य निधि खातों में 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. देशभर के लाखों खाताधारकों को ब्याज की राशि उनके पीएफ खाते में जमा होने लगी है और कई सदस्यों को इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से भी मिल रही है. हालांकि, जिन खाताधारकों को अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्याज जमा करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी है और सभी खातों में राशि क्रमशः जमा की जा रही है .

जबरदस्त वापसी, सेंसेक्स-निफ्टी में बड़ी तेजी

776 अंक चढ़ा सेंसेक्स
228 अंक की बढ़त पर रहा निफ्टी

मुंबई, 27 जुलाई पिछले सप्ताह की भारी गिरावट के बाद सोमवार को घरेलू शेयर बाजार ने शानदार वापसी की. निवेशकों की मजबूत खरीदारी के दम पर बीएसई सेंसेक्स 776.01 अंकों की तेजी के साथ 76,835.78 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी-50 228.50 अंक चढ़कर

23,995.95 के स्तर पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर मजबूत होता नजर आया. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत, चुनिंदा बड़ी कंपनियों के बेहतर

केनरा बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज

नई दिल्ली, 27 जुलाई सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज करते हुए 4,856 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है. यह पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 4,752 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग दो प्रतिशत अधिक है. बैंक की आय, ब्याज आय और परिचालन लाभ में वृद्धि के साथ-साथ संपत्ति गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. बैंक की नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, बेहतर ऋण वसूली और घटते खराब ऋणों ने तिमाही परिणामों को मजबूती दी है. जून तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 39,684 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 38,063 करोड़ रुपये थी.



तिमाही नतीजे और निचले स्तरों पर हुई खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी. बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के शेयरों में अच्छी मांग देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों को समर्थन मिला.

पिछले सप्ताह बाजार में आई तेज गिरावट के बाद निवेशकों ने गुणवत्ता वाले शेयरों में दोबारा निवेश किया. इसके चलते बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेजी का रुख रहा.

संकट में भी महंगाई पर सरकार का काबू

सरकार ने पहले से कर रखे वित्तीय संसाधनों से कीमतों पर लगाम लगाई

युद्ध और कमजोर मानसून के बावजूद बजट में संशोधन की जरूरत नहीं



आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत का पूरा बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करते समय संभावित वैश्विक संकटों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश पहले से ही निर्धारित कर ली थी. इसी रणनीति के कारण पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों और अन्य

हालांकि, वैश्विक हालात का असर सरकारी खर्च पर भी दिखाई दे रहा है. बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण उर्वरक सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी और पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है. इसके बावजूद वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और आम नागरिकों को महंगाई से राहत देने की नीति आगे भी जारी रहेगी .

आईटीआर में भूल हुई तो नोटिस तय समझिए

नई दिल्ली, 27 जुलाई आयकर रिटर्न दाखिल करते समय की गई छोटी-सी लापरवाही भी आयकर विभाग के नोटिस का कारण बन सकती है. तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली के कारण अब बैंक खाते, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, सार्वधिक जमा , क्रेडिट कार्ड और संपत्ति से जुड़े लेनदेन का मिलान सीधे करदाता के रिटर्न से किया जाता है.

ऐसे में आय छिपाना या गलत जानकारी देना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान नहीं रहा. विशेषज्ञों का कहना है कि सही जानकारी और सावधानी के साथ रिटर्न दाखिल करने से नोटिस का आशंका काफी हद तक कम की जा सकती है.सबसे पहली और महत्वपूर्ण गलती गलत आईटीआर के शेयरों में भी तेजी दर्ज की गई. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर बाजार की नजर बनी रही .



भरना चाहिए, जबकि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, संपत्ति बिक्री या पूंजीगत लाभ होने पर आईटीआर-2 आवश्यक होता है. व्यवसाय और पेशेवर आय वाले करदाताओं के लिए आईटीआर-3 या आईटीआर-4 निर्धारित हैं. गलत फॉर्म चुनने पर आयकर अधिनियम की धारा 139(9) के तहत रिटर्न दोषपूर्ण घोषित किया जा सकता है.रिटर्न दाखिल करने से पहले वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस का मिलान करना भी बेहद जरूरी है. यदि इन फॉर्म का चयन है. केवल वेतन, एक मकान और बैंक ब्याज से 50 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को आईटीआर-1

अहमदाबाद-ओखा वंदेभारत एक्सप्रेस में होंगे महत्वपूर्ण बदलाव

संशोधित समय सारणी 17 अगस्त से लागू होगी

आम्बली रोड को मिलेगी वंदेभारत की सीगात

अहमदाबाद 27 जुलाई. यात्रियों की सुविधा, बेहतर रेल कनेक्टिविटी तथा आधुनिक रेल सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में रेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

इसके तहत गाड़ी संख्या 22925/22926 अहमदाबाद-ओखा-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन, समय-सारणी तथा मार्ग में आम्बली रोड स्टेशन पर नए उहराव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह संशोधित व्यवस्था 17 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी।

संशोधित व्यवस्था के अनुसार अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रारंभ एवं समापन स्टेशन अहमदाबाद के स्थान पर साबरमती (जेल साइट) एसबीटी

पर होगा। साथ ही, अहमदाबाद के तेजी से विकसित हो रहे पश्चिमी क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आम्बली रोड स्टेशन पर अतिरिक्त उहराव भी प्रदान किया गया है।

संशोधित समय-सारणी- गाड़ी संख्या 22925 साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस 17 अगस्त 2026 से प्रतिदिन (मंगलवार को छोड़कर) साबरमती से प्रातः 06:15 बजे प्रस्थान करेगी। यह आम्बली रोड स्टेशन पर 06:23 बजे पहुंचेगी तथा 06:25 बजे प्रस्थान करेगी और 13:20 बजे ओखा पहुंचेगी।

इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 22926 ओखा-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ओखा से 16:45 बजे प्रस्थान करेगी। आम्बली रोड स्टेशन पर 22:40 बजे पहुंचेगी तथा 22:42 बजे प्रस्थान करेगी और 23:10 बजे साबरमती पहुंचेगी। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन संचालित होगी।

इस निर्णय के साथ आम्बली रोड रेलवे स्टेशन को पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस का उहराव प्राप्त होगा। इससे शहर के पश्चिमी क्षेत्र, एस.जी. हाईवे, बोडकदेव, प्रह्लादनगर, साउथ बोपल, शेला तथा आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, समय की बचत करने वाली तथा आधुनिक रेल सेवा का लाभ मिलेगा।

केवाईसी ठगी पर आरबीआई का अलर्ट

नई दिल्ली, 27 जुलाई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अपडेट के नाम पर बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

इन दिनों साइबर अपराधी बैंक खाते को बंद करने की चेतावनी देकर फर्जी एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश भेज रहे हैं. इन संदेशों में एक लिंक दिया जाता है और दावा किया जाता है कि यदि तुरंत केवाईसी अपडेट नहीं किया गया तो बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा.

घबराहट में कई लोग इस लिंक पर क्लिक कर अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी

साझा कर देते हैं, जिसके बाद उनके बैंक खातों से रकम निकाल ली जाती है.

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक केवाईसी अपडेट कराने के लिए एसएमएस, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक भेजकर ओटीपी, पिन, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगता.

ऐसे संदेश पूरी तरह फर्जी हो सकते हैं और इनका उद्देश्य ग्राहकों की निजी जानकारी चुराकर आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है. साइबर ठग पहले नकली संदेश भेजते हैं, फिर उपयोगकर्ता को एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं, जो देखने में बैंक की आधिकारिक वेबसाइट जैसी लगती है.

आईडीएफसी फर्स्ट पर बढ़ा भरोसा

नई दिल्ली, 27 जुलाई जून तिमाही के वित्तीय नतीजों के बाद निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय अलग-अलग देखने को मिली है. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए उसका लक्ष्य मूल्य 73 से बढ़ाकर 95 प्रति शेयर कर दिया है. वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कई प्रमुख ब्रोकरेज संस्थानों ने लक्ष्य मूल्य में कटौती की है.

हालांकि, इसके बावजूद अधिकारिक विश्लेषकों ने बैंक पर सकारात्मक रुख बनाए रखा है और निवेशकों को खरीदारी की

सलाह दी है. सीएलएसए ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की रेटिंग 'होलड' से बढ़ाकर 'आउटपरफॉर्म' कर दी है. ब्रोकरेज का मानना ​​है कि बैंक ने पिछले वर्ष की चुनौतियों से मजबूत वापसी की है. बैंक की जमा राशि में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि चालू और बचत खाते (कासा) का अनुपात लगभग 300 आधार अंक बढ़कर 51 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो बैंकिंग उद्योग में सबसे मजबूत स्तरों में से एक माना जा रहा है. इसी आधार पर सीएलएसए ने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) के अनुमान क्रमशः 9 प्रतिशत और 17 प्रतिशत तक बढ़ा दिए हैं.

SMFG

Grihashakti

Maya Finance Group

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 501 मॉडल, जी-वर्ल्ड, इंदिरा बॉक्स, फाइनो मेन रोड, बॉम्बे कूल कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे (ई), बॉम्बे - 400051

पंजीकृत कार्यालय: कॉर्पोरेट आईटी बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लव्ही मॉडल, नंबर 111, माउंट पुनमली रोड, मिरर, चेन्नई - 600116, टीएल

अचल संपत्ति के लिए कच्चे का नोटिस (एनएचआईV) नियम 8(1)]

चौक अयोध्यासाहू, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (प्रादेशीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ वित्तीयता (पंजीकृत) (जिसे और "एसएमएफएफसी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधित्व तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, अधिपूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उपचारकर्ताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित) नाम उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आग्रह किया गया है। नीचे उल्लिखित उपचारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उपचारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अयोध्यासाहू ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उपचारकर्ताओं और आम जनता को, एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "SMHFC" के प्रभार के अंतर्गत होगा यदि उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्र.

उपचारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन

सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)

दिमांड नोटिस दिनांक और राशि

कच्चा की तिथि

लैन:-

619539211549516

1. शाहिद मोहम्मद

2. तब्बसु बबी

यह पूरी जमीन और उस पर बनी संरचनाएं ग्राम मालीपुर, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड नंबर 48 (गांधी पंचायत कालोनी के नाम से मशहूर), खंडवा तहसील, खसरा नंबर 218/1, जिला खंडवा (मध्य प्रदेश) में स्थित है। इस संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं - पूर्व: हरदिल अजीज की जमीन; पश्चिम: सड़क; उत्तर: बाकी बाकी जमीन; दक्षिण: शेख इब्राहिम और अन्य लोगों की जमीन।

10.03.2026

₹. 7,63,667.77 (सात लाख तिरस हजार छह सौ सड़स और सतर पैसे मात्र) ब्याज सहित, 09.03.2026 तक

22.07.2026

स्थान: खण्डवा, मध्य प्रदेश

दिनांक: 22.07.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।



muthoot
FINCORP
Let money build in

मुथूट फिनकोर्प लिमिटेड

(सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रमाण)

(मुथूट पंचायत समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLC011518

प्रशासनिक कार्यालय: 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फ्लैट-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002

पंजीकृत कार्यालय: मुथूट सेन्ट्रल, टीसी नं. 27 /3022, सुनैन रोड, त्रिनेन्द्रम, केरला - 695 001

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन जबकि, अयोध्यासाहू ने, **मुथूट फिनकोर्प लिमिटेड (एमएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पडित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की थी, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(यों), याददर(री) से संपूर्ण बकाया राशि, अदत्तव ब्याज, लागत और प्रभारों के साथ, उनकी जारी की गई संबंदिध मांग सूचना(ओं) और कर्तव्यक तामील के लिए नीचे दिए अनुसार सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने हेतु, कम्पनी के प्रति उनकी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन की मांग की गई थी। उक्त कर्जदार(री), सह-कर्जदार(री) द्वारा जारी की सत्यक वापसी के लिए प्रतिभूमि के रूप में क्रमशः निम्नलिखित आस्तियां **एमएफएल** के पास बंधक रखी गईं।)

क्रं.	ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार का नाम	मांग सूचना कि तिथि एमपीए तिथि	कुल बकाया राशि	सुरक्षित संपत्तियों (ों) /अचल सम्पत्ति (ओं) का विवरण
1	ऋण खाता नं. MFLESECUMPLD00005419170 1. शिव चरण (ऋणी) 2. रवी चरण (सह-ऋणी) पता: घाटीखास, खंडवा मेन रोड, पूर्वी निमाड, मध्य प्रदेश 450661 3. किशन चरण (सह-ऋणी) 4. नाना चरण (सह-ऋणी) पता सं. नं. 1, 3 और 4: मकान नं. 208, पोस्ट कालंका, तह. पंधाना, घटीखास, घटीखास मेन रोड, पूर्वी निमाड, म.प्र. 450661 5. संपति पता: मकान, पटवारी हलका नंबर 37, मांग पंजी. नं. 06, ग्राम घाटीखास (देवलिया), तहसील पंधाना, जिला खंडवा, पूर्वी निमाड, मध्य प्रदेश 450661	17/07/2026 04/07/2026	Rs. 21,79,651.98/- (रुपये इक्कीस लाख चत्तराशी हजार छह सौ इक्कावन रुपए और अट्ठानव पैसे मात्र) दिनांक 09.07.2026 तक	आबादी, गांव गडीखार, देवनालिया प.ह.नं. 37, ग्राम पंचायत गडीखार, तहसील पंधाना और जिला खंडवा, कुल क्षेत्रफल 4950 वर्ग फीट या 46.03 वर्ग मीटर। प्राप्टिटी सीमाएं: पूर्व: मंसूर बाबा की प्राप्टिटी, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: लामू राजामारा का मकान, दक्षिण: आम रास्ता

यदि उक्त कर्जदार, सह-कर्जदार एवं गारंटर **एमएफएल** को उपरोक्तनुसार भुगतान करने में विफल रहें, **एमएफएल** उपरोक्त वर्णित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने और कानून के अधीन कम्पनी को उपलब्ध अन्य कार्यवाही करने का हक्कदार होगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उपरत कर्जदार पूर्ण रूपेण जिम्मेदार होंगे।

उत्तर कर्जदार(री), सह-कर्जदार(री) पर सरकारी ऐक्ट की धारा 13 की उप- धारा (13) के प्रावधान के तहत, **एमएफएल** की पूर्व लिखित सममति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूति आस्ति (ओं) का बिक्री, पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने के संबंध में रोक लगी है।

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 28.07.2026

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
फॉर - मुथूट फिनकोर्प लिमिटेड

ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता/ केवाईसी पंजीकृत नहीं कराया है, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (**आरटीए**) अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड या अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (**डीपी**) के माध्यम से इसे पंजीकृत/अद्यतन करवा सकते हैं। इन्हें पंजीकृत करने की प्रक्रिया निम्न उल्लिखित है:

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य: सदस्य अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर अथवा बैंक खाते का विवरण अद्यतन करने हेतु प्रपत्र आईएसआर-1 तथा अन्य अपेक्षित प्रपत्र भरकर विधिवत पूर्ण किए गए प्रपत्र कम्पनी के आरटीए को प्रेषित करें। उक्त प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् **www.maraloverseas.com** पर Investor Relations → Disclosure under Regulation 46 of Listing Regulation, 2015 → Intimation to Stock Exchange as per Reg. 30 of Listing Regulation → Procedure for Updation of PAN/KYC/Nomination by Physical Shareholders पथ के अंतर्गत उपलब्ध हैं, जहाँ से उन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।

विमूर्त रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य: सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता, केवाईसी, बैंक खाते का विवरण एवं/अथवा नामांकन संबंधी विवरण अपने डीमैट खाते में पंजीकृत कराने हेतु अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपर्क करें।

भौतिक शेयरों के अंतरण एवं विमूर्तीकरण हेतु विशेष अवसर की सूचना
सेबी परिपत्र सं. HO3/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD(II)/3750/2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण एवं विमूर्तीकरण (**"डीमैट"**) की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 5 **फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027** तक एक विशेष अवसर उपलब्ध किया गया है। उक्त विशेष अवसर उन भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण एवं विमूर्तीकरण हेतु है, जिनका क्रय/विक्रय 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व किया गया था। शेयरधारकों/निवेशकों से अनुरोध है कि वे भौतिक शेयरों के अंतरण एवं विमूर्तीकरण हेतु आवेदन करने संबंधी दिशा-निर्देशों हेतु सेबी द्वारा दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के एक परिपत्र में विनिर्दिष्ट विवरणों का अवलोकन करें, जो कम्पनी की वेबसाइट **www.maraloverseas.com** पर Investor Relations → Disclosure under Regulation 46 of Listing Regulation, 2015 → Notice of Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities पथ के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विषय के संबंध में किसी भी प्रश्न अथवा विधिवत् पूर्ण किए गए दस्तावेज प्रेषित करने हेतु सदस्यों से अनुरोध है कि वे कम्पनी के आरटीए, अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: मराल ओवरसीज लिमिटेड), 179-180, डीएसआईडीसी रोड, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, दूरभाष सं. 011-41406149-51 अथवा ई-मेल: **helpdesk@delhi@mcsegregistrars.com** पर संपर्क करें।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते मराल ओवरसीज लिमिटेड

हस्ता/—

संदीप सिंह

कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)

दिनांक : 27 जुलाई, 2026

सदस्य संख्या एफसीएस - 9877